

थाना पुवायां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा,

गिरोह के 02 शातिर सदस्य गिरफ्तार, दिल्ली से लकजरी कार चोरी कर बेचने के लिए जा रहे थे झारखण्ड,

02 लकजरी कार (फोरचूनर व बिटारा बीजा), नगदी मोबाइल बरामद ।

श्री एस0आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर द्वारा आगामी चुनाव के दृष्टिगत अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशानुसार, क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना पुवायां पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

*दिनांक 07/08.12.2022 की रात्रि थाना पुवायां पुलिस थानाक्षेत्र में गश्त में मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक चोरो का गैंग दिल्ली मेरठ से एक फोरचूनर गाडी व एक बीजा विटारा गाडी को चोरी करके ला रहे है तथा दूसरे प्रान्त बिहार झारखण्ड में जाकर बेचेंगे। यह शातिर किस्म के चोर है जो एक प्रान्त से लकजरी गाडिया चोरी करके दूसरे प्रान्त ले जाकर बेच देते है । सूचना पर थाना पुवायां पुलिस टीम द्वारा निगोही रोड पर रिजवान पुत्र मुन्ने के मुर्गी फार्म के पास से चेकिंग के दौरान फोरचूनर गाडी से आ रहे दो अभियुक्तो **1. जाहिद अंसारी पुत्र सिराजुद्दीन अंसारी नि0 ग्राम भंगेला थाना खतौली जनपद मुजफ्फर नगर हाल निवासी मकान न0 2117/01 अहमद नगर थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ 02. शैलेन्द्र चौहान उर्फ कल्लू पुत्र सुखवीर सिंह चौहान नि0 मकान न0 275/05 नेहरू नगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया** तथा कब्जे से चोरी की फोरचूनर कार बरामद की गयी । पूछताछ में अभियुक्तो की निशानदेही पर रामजी पेट्रोल पम्प करीब 50 मीटर दूर सड़क किनारे निगोही की तरफ से बीजा गाडी को बरामद किया गया । अभियुक्तों के कब्जे से आधार कार्ड व 4110 रुपये नगद व मोबाइल बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 949/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/413/414/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सघन प्रयास किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. जाहिद अंसारी पुत्र सिराजुद्दीन अंसारी नि0 ग्राम भंगेला थाना खतौली जनपद मुजफ्फर नगर हाल निवासी मकान न0 2117/01 अहमद नगर थाना लिसाडी गेट जिला मेरठ ।

02. शैलेन्द्र चौहान उर्फ कल्लू पुत्र सुखवीर सिंह चौहान नि0 मकान न0 275/05 नेहरू नगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ ।

बरामदगी

01. एक फोरचूनर कार ।

02. एक ब्रेजा कार ।

03. 01 आधार कार्ड ।

04. दो मोबाइल फोन (वीवो एमआई) कम्पनी के ।

05. 4110 रुपये नगद ।

06. फोरचूनर कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (गाडी रजि0 न0 HP 12K 5331)

प्रकाश मे आये अभियुक्तो का विवरण:-

01. आसिफ पुत्र निजाम उर्फ निजामुद्दीन नि0 मकान न0 275/05 नेहरू नगर थाना नौचन्दी जनपद मेरठ ।
02. इन्तजार पुत्र नामालूम नि0 मुमिया का पुल लिसाडी रोड खुट्टी वाली गली थाना ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ ।
03. अजहरुद्दीन पुत्र महबूब नि0 सोती गंज मेरठ ।
- 04 सोनू उर्फ अरसद पुत्र निजाम उर्फ निजामुद्दीन नि0 जली कोठी थाना लिसाडी गेट मेरठ ।
05. फराज पुत्र नामालूम निवासी नामालूम ।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तो ने पूछताछ मे बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है तथा हम अन्य प्रान्तो से लग्जरी गाडियो की चोरी करके आर्थिक भौतिक लाभ करने के उद्देश्य से खरीददारो की तलाश करते है और योजनाबद्ध तरीके से ग्राहक सेट कर अन्य प्रान्तो मे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड आदि मे कम दामो मे बेच देते है और जिस कलर की गाडी चोरी करते है उसी कलर की दूसरी गाडी का नम्बर देखकर उस नम्बर की नम्बर प्लेट लगा लेते है तथा आन लाइन रजिस्ट्रेशन भी उक्त गाडियो का खरीददार को इस उद्देश्य से देते है कि गाडी चोरी की होने का शक न हो । इस तरह हम लोगो द्वारा फराज नामक व्यक्ति को टाटा जमशेदपुर में हमारे गैंग द्वारा अभी तक तीन लग्जरी गाडिया स्विफ्ट, क्रेयटा व ब्रेजा बेची है एवं आसिफ के पास अन्य भी चोरी की कई गाडिया है । गाडियो के बिक्री के उपरान्त पैसो का हम सभी आपस मे बंटवारा कर लेते हैयह गाडी चोरी की है पकड़े जाने के डर की वजह से नम्बर प्लेट बदलकर लगा रखी है । इन दोनो गाडियो को हम लोग बेचने के लिए जमशेदपुर टाटा झारखण्ड जा रहे थे । यह गाडी हम दोनो ने व हमारे साथी आसिफ पुत्र निजाम उर्फ निजामुद्दीन नि० मो० इमलियान थाना कोतवाली मेरठ व इन्तजार पुत्र नामालूम नि० मुमिया का पुल लिसाडी रोड खुट्टी वाली गली थाना ब्रह्मपुरी० मेरठ व अजहरुद्दीन पुत्र महबूब नि० सोती गंज मेरठ व सोनू उर्फ अरसद पुत्र निजाम उर्फ निजामुद्दीन नि० जली कोठी थाना लिसाडी गेट मेरठ ने मिलकर मदन मोहन मालवीय अस्पताल के पास दिल्ली से दिनाक 02.12.22 को चोरी की थी तथा एक ब्रेजा गाडी लाल रंग की दिनाक 27.11.22 को वेस्ट विनोद नगर मंडावली फजलपुर से चोरी की थी । दोनो गाडियो के सम्बन्ध मे क्रमशः थाना मालवीय नगर पर एफआईआर न० 035138 सम्बन्ध मे थाना मधु विहार दिल्ली पर एफआईआर न० 034591 चोरी की पंजीकृत है । फार्च्यूनर कार का गाडी रजि० न० HP 12K 5331 तथा ब्रेजा गाडी का गाडी का रजि० न० DL 6CR 4557 वाहन स्वामी का नाम रहीला खातून पत्नी मोहम्मद अरमान नि० A, 28 न्यू नम्बर 56 गली नं० 6 वेस्ट विनोट हास्पिटल मडावली फजलपुर दिल्ली पाया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ०नि० नरगेश कुमार
- 2.का० 897 अक्षय बालियान
3. का० 996 योगेन्द्र कुमार
4. का० 627 मनोज कुमार
5. का० 2087 विशाल कुमार
6. का० 2171 परीक्षित तेवतिया